



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

6 कार्तिक 1936 (श०)  
(सं० पटना 886) पटना, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2014

---

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचना

24 अक्टूबर 2014

सं० 11/उत्पाद नीति-01-03/2014-1446—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-II, 1915) की धारा-90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार अधिसूचना सं० 23-137-2 दिनांक 29 अप्रैल, 1919 के अधीन प्रकाशित और समय समय पर संशोधित नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

#### संशोधन

- अधिसूचना संख्या 1538 दिनांक 07.12.2012 द्वारा संशोधित नियम 106(ग) एवं 106('ग''ग') को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-  
106(ग) भारत निर्मित बीयर का आयात बिहार के किसी भी स्थान पर किया जा सकेगा वशर्ते उस पर रु० 08 (आठ रुपये) प्रति बोतल (650 मि०ली०) की दर से आयात पास शुल्क की वसूली कर ली गई हो।  
106('ग''ग') भारत निर्मित बीयर का निर्यात राज्य से देश के अन्य राज्यों में रु० 01 (एक रुपये) प्रति बोतल (650 मि०ली०) की दर से निर्यात पास शुल्क की वसूली के उपरान्त ही किया जा सकेगा।  
"परन्तु राज्य के अन्दर बीयर का उत्पादन करने वाले ब्रिवरी अपने कुल मासिक उत्पादन के 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक बीयर की मात्रा का राज्य से बाहर निर्यात नहीं करेगा" इस अंश को विलोपित किया जाता है।
- अधिसूचना सं० 1295 दिनांक 11.12.2004 की कंडिका-2 में "बीयर की बोटलिंग अनुज्ञप्ति की दर वही होगी जो भारत निर्मित विदेशी शराब में समरूप अनुज्ञप्ति के लिए लागू हो", को विलोपित करते हुए बीयर का बोटलिंग शुल्क रु० 01.50 (एक रुपये पचास पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव।

24 अक्टूबर 2014

सं० 11/उत्पाद नीति-01-03/2014-1446—राजस्व पर्षद, बिहार के अधिसूचना सं०-11/उत्पाद नीति-01-03/2014-1446 दिनांक 24.10.2014 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव।

*The 24th October 2014*

No. 11/उत्पाद नीति-01-03/2014-1446—In exercise of powers conferred by section 90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar Act-II 1915) The Board of Revenue, Bihar is pleased to make the following amendment in rules published under notification No. 23-137-2 dated the 29<sup>th</sup> April, 1919, and as amended from time to time, as follows:-

### **Amendments**

The existing rules 106(C) and 106(CC) as amended by the Board's Notification No. 1538 dated 07.12.2012 is amended as follows:-

106(C) India made Beer may be Imported in any place of Bihar, provided that import pass fee at the rate of Rs.08(Rupee eight) per bottle (650ml) has been levied and realized in the State of Bihar.

106(CC) India made Beer can be exported from the State of Bihar to any other State of the Country only after realizing export pass fee at the rate of Rs. 01(Rupee one) per Bottle (650 ml).

The provision "Provided that the Brewery in the State shall not export more than 50% of the Beer produced by in a month" is deleted.

(2) The existing Rule 113 substituted by notification No. 1295 dated 11.12.2004 amended as follows :-

The provision of "bottling license fee for Beer shall be the same as the ones prevailing for similar licences for India made foreign liquor" is deleted and the bottling licence fee for the Beer is substituted as Rs. 1.50 (One rupee fifty paise) per BL.

By order of the Member, Board of revenue, Bihar,

Sd./Illegible,

*Deputy Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 886-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>